

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी 2020—फाल्गुन 9, शक 1941

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश

क्र.-939-पंचायत सेल-निर्वाचन-2019

सागर, दिनांक 17 फरवरी 2020

अधिसूचना

मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ 16-5/2019/22/पं.-2 दिनांक 22.06.2019 में दिये गये निर्देश अनुसार मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन परिसीमन की कार्यवाही उपरांत मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-1-11-95-बाइस-पं.-1, दिनांक 23.02.1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर सागर मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 126(1) के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला सागर अंतर्गत नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 4 में वर्णित ग्राम पंचायत के स्तम्भ 5 के सम्मिलित ग्राम, को म0प्र0 शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक 183 भोपाल दिनांक 22 मार्च 2018, अधिसूचना क्रमांक 184 भोपाल दिनांक 22 मार्च 2018, अधिसूचना क्रमांक 559 भोपाल दिनांक 04 अक्टूबर 2018 एवं अधिसूचना क्रमांक 561 भोपाल दिनांक 04 अक्टूबर 2018 के अनुसार नगरीय क्षेत्र में विनिर्दिष्ट करने के फलस्वरूप ग्राम पंचायतों को विघटित कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है -

सारणी

| स. क्र. | जिला | तहसील | ग्राम पंचायत का नाम | नगरीय निकाय में सम्मिलित क्षेत्र जो अब ग्रामीण क्षेत्र का भाग नहीं रहा |
|---------|------|--------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | सागर | मालथौन | मालथौन कुंवरपुरा अण्डेला मांदरी इटवा बेसरा | मालथौन, उद्वेतपुरा कुंवरपुरा, धौरईखास, सीपुरखास, चक्कधौरईखास अंडेला, गंगउ, रमपुरा, बधोनिया, चक्कबधोनिया मांदरी, नोठा, पलेथनी, ढिमरई, सुकालीपुरा इटवा, अमाईरमगढ़ा, तीतरी, गौरार बेसरा, जामुनढाना, कुलुवाखास |

| | | | | |
|---|------|---------|--|--|
| 2 | सागर | मालथौन | बांदरी पिठौरिया अटाटीला झींकनी पहरगुवां पिथौली आगार्सिस मूडरीपिठौरिया | बांदरीकरोली पिठौरिया, छिरारू अटाटीला, उमावड़ा(वनग्राम) झींकनी, बरोदियाचंद्रापुर पहरगुवां, नेतना पिथौली, इमलियाखुर्द, सेमराअटा, मुड़ियागुसाई आगार्सिस, बमनौरा मूडरीपिठौरिया, पीरई, सादपुर,परासरी, सेमराजामूदीप |
| 3 | सागर | जैसीनगर | बिलहरा केवलारी पिपरिया सींगना खुरईथांवरी महुआखेड़ा बेरखेरीमढिया | बिलहरा सिमरिया पिपरिया, टेकापार सींगना खुरईथांवरी महुआखेड़ा बम्होरी |
| 4 | सागर | सागर | सुरखी विदवांस चतुर्भटा मिड़वासा करैया | सुरखी विदवांस चतुर्भटा मिड़वासा करैया |

प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर.